

**CERTIFICATE IN SHOE LASTING AND FINISHING (CSLF)****Term-End Examination****June, 2012****OET-031 : BASICS OF LASTING TECHNOLOGY***Time : 3 Hours**Maximum Marks : 100*

---

*Note : Answer all the questions. Answer must be given to the point.*

---

1. Define the following :  $2 \times 5 = 10$ 
  - (a) Lasting
  - (b) Scouring
  - (c) Roughing
  - (d) Carbon paper test
  - (e) Halogenation
  
2. Explain twelve drafting pulls with the help of 10 diagram.
  
3. Explain grinderies used in lasting department and 10 their types.
  
4. Write down the sequence of operation for hand 10 lasting of leathor upper and attachment of PU sole to make the complete shoe.

5. (a) Fill in the blanks : 1x5=5
- (i) Solvent based toepuff are \_\_\_\_\_ activated.
  - (ii) 36 no. grit is used for \_\_\_\_\_.
  - (iii) \_\_\_\_\_ heat setter machine is used for synthetic.
  - (iv) Backpart lasting is done by \_\_\_\_\_ mm tacks.
  - (v) Chemical activation of T.P.R. sole is called \_\_\_\_\_.
- (b) Tick *True (T)* or *False (F)* : 1x5=5
- (i) Outside quarter of the upper is always 2-3 MM down inside quarter.
  - (ii) Cement construction is the example of indirect construction.
  - (iii) Hand tack's have a smooth finish.
  - (iv) Scouring is done to raise the fibres of the leather for adhesive penetration.
  - (v) Leather board is used for making in soles.
6. Explain different type's of heat setter's used in lasting department. 10
7. Write down twenty safety points before entering the lasting work lab or lasting department. 10

**8. Cross the odd one out :**

$$2 \times 5 = 10$$

- (a) (i) T.P.R. (ii) P.V.C.  
(iii) Leather (iv) Texon Board

(b) (i) California (ii) Strobel  
(iii) Last (iv) Stitch down

(c) (i) Mulling (ii) Neoprene  
(iii) Polyurathane (iv) Latex

(d) (i) Pincer (ii) Tack-puller  
(iii) Brush (iv) Sole

(e) (i) Solepress  
(ii) Heel crowning  
(iii) Pounding  
(iv) Drafting pulls.

9. What are the different types of lasts used for making footwear's (shoes) ? Explain briefly. 10

10. Draw the cross-sectional diagram of following construction. **2x**

$$2 \times 5 = 10$$

- (a) Sancrispino
  - (b) Moccassin
  - (c) California
  - (d) Good year welt
  - (e) Veldtschoen

**शू लास्टिंग और फिनिशिंग में प्रमाण-पत्र  
( सी.एस.एल.एफ. )**

सत्रांत परीक्षा

जून , 2012

**ओ.ई.टी.-031 : लास्टिंग तकनीकी के आधार**

**समय : 3 घण्टे**

**अधिकतम अंक : 100**

**नोट :** सभी दस प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए।

1. निम्नलिखित का वर्णन करो : **2x5=10**  
 (a) लास्टिंग  
 (b) स्कोरिंग  
 (c) रफिंग  
 (d) कार्बन पेपर टेस्ट  
 (e) हैलोजिनेशन
  
2. टवेल्व ड्राफिंग खिचाव की चित्रांकित व्याख्या कीजिये। **10**
  
3. लास्टिंग विभाग में प्रयोग में लाई जाने वाली ग्राइन्डरीज एवं उनके प्रकारों का वर्णन करो। **10**
  
4. लेदर अपर एवं पी.यू. सोल से जूता बनाने की हैन्ड लास्टिंग प्रक्रिया को लिखिये। **10**

5. (a) रिक्त स्थान भरो : 1x5=5

- (i) सोलवेन्ट बेसड टो पफ \_\_\_\_\_ सक्रिय होता है।
- (ii) 36 न. के ग्रिट का प्रयोग \_\_\_\_\_ होता है।
- (iii) \_\_\_\_\_ हीट सेटिंग मशीन सिन्थेटिक के लिए प्रयोग की जाती है।
- (iv) बैकपार्ट लास्टिंग \_\_\_\_\_ मिली मीटर कील द्वारा होती है।
- (v) टी.पी.आर. सोल का केमीकल एक्टीवेशन \_\_\_\_\_ कहलाता है।

(b) प्रत्येक कथन के सामने (✓) या (✗) का निशान लगाइये : 1x5=5

- (i) आउटसाइड का क्वार्टर सदैव इनसाइड क्वार्टर से, दो से तीन मिलीमीटर नीचे होता है।
- (ii) सीमेन्ट कन्स्ट्रक्शन, इनडाइरेक्ट कन्स्ट्रक्शन का उदाहरण है।
- (iii) हैंड टेक की स्मूथ फिनिश होती है।
- (iv) स्कोरिंग की प्रक्रिया लेदर में अडेसिव पेनीट्रेशन के लिए फाइबर को निकालने के लिए की जाती है।
- (v) लेदर बोर्ड का प्रयोग इनसोल बनाने के लिए किया जाता है।

6. लास्टिंग विभाग में प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हीटसैटरों की व्याख्या कीजिये। 10

7. लास्टिंग वर्कलैब या विभाग में प्रवेश करने से पहले बीस सावधानियों का वर्णन कीजिये। 10
8. किसी एक विषम को छाँटिये : 2x5=10
- |                      |                     |                   |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| (a) (i) टी.पी.आर.    | (ii) पी.वी.सी.      |                   |
|                      | (iii) लेदर          | (iv) टेक्सन बोर्ड |
| (b) (i) कैलीफोर्निया | (ii) स्ट्रोबल       |                   |
|                      | (iii) लास्ट         | (iv) स्टीचडाऊन    |
| (c) (i) मलिंग        | (ii) नीओप्रीन       |                   |
|                      | (iii) पालीयूरेथेन   | (iv) लैटेक्स      |
| (d) (i) पिन्सर       | (ii) टेकपुलर        |                   |
|                      | (iii) ब्रुश         | (iv) सोल          |
| (e) (i) सोलप्रेस     |                     |                   |
|                      | (ii) हीलक्राउनिंग   |                   |
|                      | (iii) पाउन्डिंग     |                   |
|                      | (iv) ड्राफिटिंग पूल |                   |
9. फुटवियर बनाने के लिए लास्ट के प्रकार क्या है? विस्तार सहित समझाइये। 10
10. निम्नलिखित कस्ट्रक्सन के क्रास सैक्सनल चित्र बनाइये : 2x5=10
- |                   |
|-------------------|
| (a) सैनक्रिसपीनो  |
| (b) मोकासिन       |
| (c) कैलीफोर्निया  |
| (d) गुड ईयर वेल्ट |
| (e) वेल्डचोइन     |